

आपकी कोविड-19 वैक्सीन के अपॉइंटमेंट की तैयारी करना



क्लिनिक में आने से पहले कुछ खाकर पानी पी लें और साथ में पानी लेकर आएं



ढीले-ढाले टॉप या टी-शर्ट पहनें



यदि आपमें कोविड-19 के कोई लक्षण हैं, तो आपका अपॉइंटमेंट फिर से बुक करें



क्लिनिक के कर्मचारियों को बताएं कि क्या आप पहले बेहोश हुए हैं या बेचैनी महसूस कर रहे हैं



क्लिनिक में, यदि आपको मदद की ज़रूरत है या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो स्टाफ़ को बताएं